

(1)

LEASE NOTE THIS CAREFULLY. ELSE YOUR PENSION WILL BE DELAYED  
ing, demeritoria, etc. and when they occur must be made and attested.  
Order passed (Ar. 370, C. S. R.)  
Act natural, or your officialing, i. e. whether they were in civil or military  
on probation before demerification, let your service book say so (Ar. 373, C.S.R.)  
the service is verified and recorded every year.

सावधानी से कर्मचारी नोट कर ले नहीं तो आपकी पेंशन में देर होगी।  
पर आप काम कर रहे थे, यदि वह आपसे चलकर खाते ही जायें तो इस साफ-साफ लिखा जाना चाहिए।  
पदों का ठीक-ठीक विवरण दीजिए अर्थात् क्या वे पूरी तौर से लाठी जगहों पर थे? (सचिव सचिव  
लेन के पहले परिचीतधीन (no probation) थे तो यह आपकी सेवा पत्रिका (सचिव बुक) से या  
लिख सचिव रेगुलेशन, धारा 373)।  
मैं किस-किस तरह की राजसेवा में रह चुके हूँ साफ-साफ लिखा दीजिए।  
ख कि आपकी राज सेवा को जान हर साल की जाती है और उस लिख भी दिया जाता है।  
आकाउंटेंट जनरल

Accountant General

THUMB & FINGER IMPRESSIONS OF EMPLOYEE

बायें कर Left Hand	दाहिण कर Right Hand
अंगूठा Thumb	अंगूठा Thumb
निचला अंगूठा Middle Finger	निचला अंगूठा Middle Finger
अंगूठा Index Finger	अंगूठा Index Finger
अंगूठा Ring Finger	अंगूठा Ring Finger
अंगूठा Little Finger	अंगूठा Little Finger

गुन: प्रमाणिकरण/Registration प्रमाणित करवा/Attested by

प्रमाणित करवा/Attested by  
प्रमाणित करवा/Attested by  
प्रमाणित करवा/Attested by  
प्रमाणित करवा/Attested by  
प्रमाणित करवा/Attested by  
प्रमाणित करवा/Attested by

प्रमाणित करवा/Attested by  
प्रमाणित करवा/Attested by  
प्रमाणित करवा/Attested by  
प्रमाणित करवा/Attested by  
प्रमाणित करवा/Attested by  
प्रमाणित करवा/Attested by

F. R. FORM No. 13  
(See Paragraph 35 of Auditor-General's Instructions Issued Under Fundamental Rule 74)

- Name: AVINASH SAKSENA  
नाम
- Race: KAYASTHA, HINDU  
जाति या कौम
- Permanent Residence: 1/711, MALVIYA NAGAR, DABHOALI,  
रसाई निवास स्थान  
9, DIKUSHA, NEW KATKA, ALLAHABAD
- Father's name and Residence: SHRI D. D. SAXENA, 9 DIKUSHA,  
पिता का नाम तथा निवास स्थान  
NEW KATKA, ALLAHABAD.
- Date of Birth by the christian era as nearly as can be ascertained: 30-06-1963.  
बन्ना दिनांक शब्दों में  
THIRTIETH JUNE NINETEENHUNDRED & SIXTY THREE
- Exact height by measurement: 5' 8"  
ठीक-ठीक लम्बाई
- Personal marks for Identification: Nobs on Right back.  
व्यक्तिगत अभिज्ञान चिह्न  
Arinash Saksena
- Signature of Government servant with date: Avinash Saksena  
सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर दिनांक सहित
- Signature and designation of Head of the office or other attesting officer, with date: अनूप नारायण शर्मा  
कार्यालयपालक या दूसरे अभिज्ञानमाग्न अभिकारी के हस्ताक्षर तथा पदनाम दिनांक सहित  
3.6.64

N.B. — The entries in this page should be renewed or reattested at least every five years.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Name of appointment	Whether substantive or officiating and whether permanent or temporary	If officiating here state substantive appointment if any	Pay in subs. temp. appointment	Additional Pay for officiating	Other emolument under the temporary	Care of appointment	Signature of Government servant	Signature and designation of the head of office or other attesting officer in columns 1 to 8
परक नाम श्रीमान श्री प्रमोद सिंह श्रीमान श्री प्रमोद सिंह श्रीमान श्री प्रमोद सिंह श्रीमान श्री प्रमोद सिंह श्रीमान श्री प्रमोद सिंह श्रीमान श्री प्रमोद सिंह	नामिक या अस्थायी या अस्थायी	श्रीमान या अस्थायी या अस्थायी	श्रीमान या अस्थायी या अस्थायी	श्रीमान या अस्थायी या अस्थायी	श्रीमान या अस्थायी या अस्थायी	श्रीमान या अस्थायी या अस्थायी	श्रीमान या अस्थायी या अस्थायी	श्रीमान या अस्थायी या अस्थायी
श्रीमान श्री प्रमोद सिंह श्रीमान श्री प्रमोद सिंह श्रीमान श्री प्रमोद सिंह श्रीमान श्री प्रमोद सिंह श्रीमान श्री प्रमोद सिंह श्रीमान श्री प्रमोद सिंह	श्रीमान या अस्थायी या अस्थायी	श्रीमान या अस्थायी या अस्थायी	श्रीमान या अस्थायी या अस्थायी	श्रीमान या अस्थायी या अस्थायी	श्रीमान या अस्थायी या अस्थायी	श्रीमान या अस्थायी या अस्थायी	श्रीमान या अस्थायी या अस्थायी	श्रीमान या अस्थायी या अस्थायी

10	11	12	13	14	15
Date of termination of appointment	Reason of termination such as promotion, transfer, dismissal etc.	Signature of the Head of the office or other attesting officer	Leave taken	Signature of Head of office or other attesting officer	Reference to any department or award of Govt. servant
31.8.96	Periodical increment	श्रीमान या अस्थायी	Allocation of periods of leave on full pay upto four months for which leave salary is payable to another Government department	श्रीमान या अस्थायी	श्रीमान या अस्थायी
24.9.96	Transfer to another post	श्रीमान या अस्थायी	Govt. to which debtable	श्रीमान या अस्थायी	श्रीमान या अस्थायी
02.6.97	Transfer to another post	श्रीमान या अस्थायी		श्रीमान या अस्थायी	श्रीमान या अस्थायी
31.8.97	Periodical increment	श्रीमान या अस्थायी		श्रीमान या अस्थायी	श्रीमान या अस्थायी
31.8.98	Periodical increment	श्रीमान या अस्थायी		श्रीमान या अस्थायी	श्रीमान या अस्थायी
05.6.99	Periodical increment	श्रीमान या अस्थायी		श्रीमान या अस्थायी	श्रीमान या अस्थायी

DISTRICT JUDGE  
KANPUR-NAGAR

Services verified from local records & bill books of the erstwhile Government of U.P. District Judge Kanpur - May 1999

OR DER

Original Routine Book of Sr. Anand Singh relating to his periodical increments is tagged with this Routine Book relating to Sr. Anand Singh's letter No. 17458/12-2558/Admn(A) Dated 27-11-95.

Services Verified from 01-1-96 to 31-0-97 as per local records i.e. bill book.

D.J.





OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AGE) - II  
UPPRA PRADESH - ALLAHABAD

A L L O T M E N T - S L I P

Employee's Name	AVINASH SAXENA	Account No. Allotted
Father/Husband's Name	R D SAXENA	LJU \ 23011
Date of Birth	30/06/63	
Date of Appointment	06/09/93	
Old Account Series		
Old Account Number	0	
Head of Account	2014	
Treasury Code	GZD	
D.D.'s Name	DISTRICT COURT GHAZIABAD	

Note : Any mistake / incomplete information in the above data may please be intimated immediately for necessary correction.

Asstt. Accounts Officer FC-15



# Office of the District Judge, Kanpur Nagar

## Form of Earned Leave Account

Name: Dr. Anwarul Hossain Designation: Metropolitan Magistrate Date of Birth: 30.06.1963  
 Date of Permanent Employment: .....

Period of Commencement of Continuous Service: .....  
 Date of Retirement/Registration/Termination of Service: .....  
 Particulars of service in the calendar half year: .....  
 Completed months of service in the calendar half year: .....  
 Earned leave credited in the beginning of half year: .....  
 Number of days of extra ordinary leave availed during the previous calendar half year: .....  
 Earned leave to be deducted (1) of the period in col. 1, 5: .....  
 Total earned leave at credit in days (Cols. 4, 11 & 6): .....  
 Leave taken From: ..... To: ..... No. of days: .....  
 Balance of earned leave on return from leave (Cols. 7-10): .....

Particulars of service in the calendar half year	Completed months of service in the calendar half year	Earned leave credited in the beginning of half year	Number of days of extra ordinary leave availed during the previous calendar half year	Earned leave to be deducted (1) of the period in col. 1, 5	Total earned leave at credit in days (Cols. 4, 11 & 6)	Leave taken From To	No. of days	Balance of earned leave on return from leave (Cols. 7-10)
<b>Balance forwarded up to 31.12.94</b>								
1. 1.95 to 30.6.95	6 Months	16 days	-	-	31 days	21.11.94 to 03.12.94	13 days	Balance 18 days
1. 7.95 to 31.12.95	6 Months	15 days	-	-	31 days	04.12.94 to 03.12.95	13 days	Balance 18 days
1. 1.96 to 30.6.96	6 Months	16 days	-	-	49 days	04.12.95 to 03.12.96	7 days	Balance 58 days
1. 7.96 to 31.12.96	6 Months	15 days	-	-	65 days	04.12.96 to 03.12.97	7 days	Balance 72 days
1. 01.97 to 30.6.97	6 Months	16 days	-	-	75 days	04.12.97 to 03.12.98	5 days	Balance 77 days
1. 07.97 to 31.12.97	6 Months	15 days	-	-	91 days	04.12.98 to 03.12.99	5 days	Balance 82 days
1. 01.98 to 30.6.98	6 Months	16 days	-	-	106 days	04.12.99 to 03.12.00	5 days	Balance 101 days
1. 07.98 to 31.12.98	6 Months	15 days	-	-	92 days	04.12.00 to 03.12.01	7 days	Balance 108 days
1. 01.99 to 30.6.99	6 Months	16 days	-	-	107 days	04.12.01 to 03.12.02	7 days	Balance 115 days
1. 07.99 to 31.12.99	6 Months	15 days	-	-	116 days	04.12.02 to 03.12.03	7 days	Balance 122 days



